



तैराकी, मछली पकड़ने और बोटिंग के दौरान इन सुरक्षा सलाहों का पालन करके खुद को और अपने परिवार को पानी में और इसके आस-पास सुरक्षित रखें:



पानी में अकेले  
न जाएँ



मछली पकड़ने के  
समय या बोटिंग  
करते समय हमेशा  
लाइफ जैकेट पहनें



पानी की  
गतिविधियों से  
पहले या इनके  
दौरान एल्कोहल  
न पीएँ



अपने बच्चों  
की हमेशा  
निगरानी करें



तैराकी सीखें और  
अपने सुरक्षा नियमों  
से अवगत रहें

जीवन बचाने के लिए सुरक्षित निर्णय लें।

[RoyalLifeSaving.com.au](https://www.RoyalLifeSaving.com.au)



**ROYAL LIFE SAVING**  
AUSTRALIA